



**ISMAIL NATIONAL MAHILA PG COLLEGE**

**Meerut**

**Student Satisfaction Survey**

**Academic Session 2020-21**



## Student Satisfaction Survey


Total Students: 410

S. No.	Title	Very Good %	Good %	Average %	Poor %	Very Poor %
1	Academic content	41	50.5	7.8	0.5	0.2
2	Usefulness of teaching materials	46.1	48	4.9	0.7	0.2
3	Usefulness of Study groups in furthering the learning	40.5	51.7	7.1	0.5	0.2
4	Timeliness of practical work (if appropriate)	37.6	51.2	10.7	0.2	0.2
5	Giving and getting helpful feedback	34.6	54.4	9.8	0.7	0.5
6	Fairness of evaluation	33.4	53.9	11.2	1.2	0.2
7	Interaction with faculty	36.6	52.5	10	0.7	0.5
8	Interaction with administration	26.6	58.5	12.4	2.0	0.5
9	Library facilities	45.4	40.7	11.5	1.5	1.0
10	Computer facilities	30.0	45.6	17.6	4.1	2.7
11	Recreational facilities	24.6	48.5	19	5.6	2.2
12	Extra-curricular activities	34.6	49.0	14.4	1.0	1.0
13	Sports facilities	34.1	45.6	13.7	4.1	2.4
14	Language lab facilities	28.3	50.7	16.6	2.7	1.7
15	Lift facilities	19.8	40.5	22.9	11.0	5.9
16	Canteen	15.1	34.4	27.6	12.9	10.0
17	Washroom etc.	22.0	53.7	17.8	4.1	2.4
18	Uninterrupted power back up	41.2	44.9	10.0	2.4	1.5

## Students Academic Details:


Please Confirm It's Your First and Only time you answer this survey (कृपया पुष्टि करें कि यह आपका पहला और एकमात्र मौका है जब आप इस सर्वेक्षण का उत्तर दे रहे हैं)

410 responses




### Class

410 responses



### YEAR


410 responses



## Graphical Representation of Student Satisfaction Survey


### 1. Academic Content (अकादमिक विषय वस्तु)

410 responses




### 2. Usefulness of Teaching (शैक्षणिक सामग्री की उपयोगता)

410 responses




### 3. Usefulness of Study Groups in furthering the learning (शिक्षा प्राप्ति के विकास में अध्ययन समूहों की उपयोगिता)

410 responses




#### 4. Timeliness of practical work (if appropriate) प्रायोगिक कार्यो का समय पालन

410 responses




#### 5. Giving and Getting helpful feedback उपयोगी प्रतिपुष्टि का आदान-प्रदान

410 responses




#### 6. Fairness of Evaluation (मूल्यांकन की निष्पक्षता)

410 responses




### 7. Interaction with Faculty (शिक्षकीय प्रभाग से पारस्परिक संवाद)

410 responses




### 8. Interaction with Administration (प्रशासन के साथ पारस्परिक संवाद)

410 responses




### 9. Library Facilities (पुस्तकालय सुविधाएं)

410 responses




### 10. Computer Facilities (कंप्यूटर सुविधाएं)

410 responses




### 11. Recreational Facilities (मनोरंजन सुविधाएं)

410 responses




### 12. Extra Curricular Activities (पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियाँ)

410 responses




### 13. Physical and Sports Activities (शारीरिक और खेल गतिविधियां)

410 responses




### 14. Language Lab Facilities (भाषा प्रयोगशाला सुविधा)

410 responses



### 15. Lift Facilities (लिफ्ट की सुविधा)


410 responses






### 16. Canteen

410 responses



### 17. Washrooms etc.

410 responses



### 18. Uninterrupted Power Backup (जनरेटर की सुविधा)

410 responses

